



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2009/कार्तिक 12, 1931

No. 1791]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2009/KARTIKA 12, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

का.आ. 2793(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष जिला राजस्व अधिकारी, (भूमि अर्जन), रास, विल्लुपुरम को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 के 40/000 कि.मी. से 85/600 कि.मी. तक के भू-खण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 के 40/000 कि.मी. से 85/600 कि.मी. पर भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गांव का नाम
1	2	3	4	5
1.	विल्लुपुरम	1. तिदिवनम्	रोशनाई टिडिवनम रोशनाई	(1) सालावादी (2) तिन्दीवनम् (3) पट्टनम् (4) पेलाकुप्पम (5) कोल्लार (6) सालाई (7) मेलपेराडिकुप्पम (8) तिनानुर (9) निलुक्कम
		2. सेंजी	सेंजी	(1) मेल चितामुर (2) मरुदेरी (3) वल्लम (4) नट्टारमंगलम (5) कालयुर (6) सेरविलागम (7) नेनिलीकोन्डाम (8) उरेनितांगल

1	2	3	4	5
				(9)पोनपती
				(10)मुथुकाडु आर एफ
				(11) अंजनचेरी
				(12) मेल इडयालम
				(13) जमबोदी
				(14)जयनकोदान
			आनन्दपुरम	(15) अप्पमबटटु
			सेंजी	(16) मीनामपुर
			अंदापुरम	(17) कोनई
			सत्यमंगलम	(18) ओदियातुर
				(19) पेरुंगाप्पुर
				(20) मनालपाडी
				(21)पसुमलोथांगल
				(22) नयमबाडी
				(23) भारततांगल
				(24) आलमपुंडी
				(25) सत्यमंगलम्
			नल्लानपिल्लइपेट्टाल	(26) सेम्मेडु
				(27)विरमानलुर
				(28) मेलपापामबाडी

[फा. सं. भारराप्रा/बीओटी/11012/60/2005(भाग)]

प्रभाकर, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2009

S.O. 2793(E).-- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Special District Revenue Officer (LA), NH, Viluppuram, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km.40/000 to Km.85/600 of the National Highway No.66 for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Tamil Nadu, as specified in the Schedule below:-

## SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No.66 in the State of Tamil Nadu on the stretch from Km.40/000 to Km.85/600

Serial number	District	Taluk	Police Station	Name of the village
1	2	3	4	5
1	Viluppuram	1. Tindivanam	Roshanai	(1) Salavadi
			Tindivanam	(2) Tindivanam
			Roshanai	(3) Pattanam
				(4) Pelakuppam
				(5) Kollar
				(6) Salai
				(7) Meiperadikuppam
				(8) Tivanur
				(9) Vilukkam
		2. Gingee	Gingee	(1) Mel Chitamur
				(2) Maruderi
				(3) Vallam
				(4) Nattarmangalam
				(5) Kalaiyur
				(6) Servilagam
				(7) Nangilikondan
				(8) Uranittangal
				(9) Ponpatti
				(10) Muthukadu R.F
				(11) Anjancheri
				(12) Mel Idaiyalam
				(13) Jambodi
				(14) Jayankondan
			Anadapuram	(15) Appambattu
			Gingee	(16) Minamur
			Anadapuram	(17) Konai
			Satyamangalam	(18) Odiyattur
				(19) Perungappur
				(20) Manalpadi
				(21) Pasumalaithangal
				(22) Nayambadi
				(23) Bharatantangal

1	2	3	4	5
				(24)Alampundi
				(25)Satyamangalam
			Nallanpillaipetral	(26)Semmedu
				(27)Viramanallur
				(28) Melpapambadi

[F. No. NHAI/BOT/11012/60/2005 (Pt)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

**का.आ. 2794(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), रास, विल्लुपुरम को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 85/000 कि.मी. से 155/200 कि.मी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

**अनुसूची**

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 85/600 कि.मी. से 155/200 कि.मी. पर भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5
1	थिरुवन्नमलाई	1. थिरुवन्नमलाई	किलन्नाथुर	(1) कैलपेन्नाथुर
				(2) सिरुनथुर
			थिरुवन्नमलाई पुर्व	(3) नोचिमलाई
			किलन्नाथुर	(4) सोमासीपाडी
				(5) सिरुकोटटान
				(6) सम्मनदानुर
				(7) चिन्नाकांगैयनुर
				(8) मलअपमबाडी
			तिरुवन्नमलाई पुर्व	(9) कैलनाचिपट्टी
				(10) कैलनाटदुर
				(11) मेलटिक्कान
				(12) कैलनाक्काराई
			थाचामपेट	(13) मेलपुट्टीयानदल
			थांदरामपेट	(14) सावलपुंदी
			तिरुवन्नमलाई तालुक और तन्नामपेट	(15) नल्लवंपलायम

1	2	3	4	5
			तिरुवन्नमलाई तालुक	(16) समुद्रम
				(17) कनाडमपुंडी
				(18) अनदपुरन्डान
				(19) अतियांदल
				(20) कावेरीयामपुंडी
				(21) अयमपालयम
		2. चेंगम		(1) असवानआगासुर्नई
				(2) चिन्नाकोलापाडी
				(3) पेरीयाकोलापांडी
			पाछल	(4) कन्नाकुरुकई
				(5) नल्लुर
				(6) पाछल
				(7) इरेयुर आर एफ
				(8) विन्नावनुर
				(9) उचिमलईकुपम
				(10) इरियुर
				(11) मेलमुडियानुर
			चेंगम	(12) कोट्टाकुलम
				(13) करियमंगलम
				(14) मनमलाई
				(15) थुक्कापेट्टाई
				(16) थोक्कावाडी
				(17) पेरुमबट्टाम
				(18) मेलपुलुदियुर
				(19) पाक्किरिपलायम
			मेलचेंगम	(20) अंदानुर
				(21) मेलचेंगम -2
				(22) अनांदावाडी आर एफ
				(23) मेलचेंगम आर एफ
				(24) मेलचेंगम -1
				(25) आनंदवाडी

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2009

S.O. 2794(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Special District Revenue Officer (LA), NH, Viluppuram, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km.85/600 to Km.155/200 of the National Highway No.66 for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Tamil Nadu, as specified in the Schedule below:-

## SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No.66 in the State of Tamil Nadu on the stretch from Km.85/600 to Km.155/200

Serial number	District	Taluk	Police Station	Name of the village
1	2	3	4	5
1.	Tiruvannamalai	1. Tiruvannamalai	Kilpennathur	(1) Kilpennathur
				(2) Sirunathur
			Tiruvannamalai East	(3) Nochimalai
				(4) Somasapadi
			Kilpennathur	(5) Sirukottan
				(6) Sammandanur
				(7) Chinnakangiyanur
				(8) Malapambadi
			Tiruvannamalai East	(9) Kilnachipattu
				(10) Kilnattur
				(11) Meltikkan
				(12) Kilnakkarai
			Thachampet	(13) Melputtiyandal
			Tandrampet	(14) Savalpundi
			Tiruvannamalai Taluk & Tandrampet	(15) Nallavanpalayam
			Tiruvannamalai Taluk	(16) Samudram
				(17) Kanadampundi
				(18) Anapurandan

1	2	3	4	5
				(19) Athiyandal
				(20) Kaveriypundi
				(21) Aiyampalayam
		2. Chengam		(1) Aswanagasuranai
				(2) Chinnakolapadi
				(3) Periyakolapadi
			Pacchal	(4) Kannakurukkai
				(5) Nallur
				(6) Pacchal
				(7) Eraiyur R.F
				(8) Vinnavanur
				(9) Uchimalaikuppam
				(10) Eraiyur
				(11) Melmudiyarur
			Chengam	(12) Kottakulam
				(13) Kariamangalam
				(14) Manmalai
				(15) Thukkapettai
				(16) Thokkavadi
				(17) Perumbattam
				(18) Melpuludiyur
				(19) Pakkiripalayam
			Melchengam	(20) Andanur
				(21) Melchengam - 2
				(22) Anandavadi R.F
				(23) Melchengam R.F
				(24) Melchengam - 1
				(25) Anandavadi

[F. No. NHAI/BOT/11012/60/2005 (Pt)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

का.आ. 2795(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), रा.रा. कृष्णागिरि

को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 155/200 कि.मी. से 214/000 कि.मी. तक के

भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण,

प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना शुरू करेगा।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 155/200 कि.मी. से 214/000 कि.मी. पर भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5
1	कृष्णागिरि	1. उत्तंगरई	सिंगारपेट्टाई	(1) कुरुगापट्टी
				(2) नायकानुर
				(3) तिरुतिगिरिवलासाई
				(4) सिंगारपेट्टाई
				(5) मल्लुपट्टी
				(6) नरसमपट्टी
				(7) मिट्टापल्ली
				(8) ओबक्कावलासाई
			उत्तंगरई	(9) कौदामपट्टी
				(10) कोल्लानुर
				(11) चेन्नाप्पनायकनुर
				(12) ईलुप्पाईकुट्टापट्टी
				(13) उत्तंगरई
				(14) तांदीयाप्पनुर
			सामलपट्टी	(15) सामलपट्टी
				(16) कल्लुगनुर
				(17) गोल्लापट्टी
				(18) सेलाकारमपट्टी
				(19) विरियमपट्टी
				(20) कुरसमपट्टी
				(21) कंगानूर
				(22) ओड्डापट्टी
				(23) कनिछि
		2. पोचमपल्ली	मथुर	(1) कौडिरेडडीपट्टी
				(2) सोनार हल्ली
				(3) मराप्पानायकनपट्टी
				(4) बटराहल्ली
				(5) गैदिकामपट्टी



1	2	3	4	5
				(6) नागमपट्टी
				(7) पिच्चुगुंटानहल्ली
				(8) कन्नडहल्ली
		3. कृष्णागिरि	बरगुर	(1) पुलीगुंटा
				(2) तोगारपल्ली आर एफ
				(3) जगदेवीपलायम
			गांधीकुपुरम	(4) चेंदरापल्ली
				(5) सुलामलई
			कृष्णागिरि टाउन	(6) अगासीपल्ली

[फा. सं. भा.रा.प्रा/बीओटी/11012/60/2005(भाग)]

प्रभाकर, उप-सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2009

**S.O. 2795(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Special District Revenue Officer (LA), NH, Krishnagiri, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 155/200 to Km. 214/000 of the National Highway No.66 for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Tamil Nadu, as specified in the Schedule below:-

**SCHEDULE**

Acquisition of land in respect of National Highway No.66 in the State of Tamil Nadu on the stretch from Km.155/200 to Km.214/000

Serial number	District	Taluk	Police Station	Name of the village
1	2	3	4	5
1	Krishnagiri	1. Uttangarai	Singarapettai	(1) Kurugappatti
				(2) Nayakkanur
				(3) Tirttagirivalasai
				(4) Singarapettai
				(5) Malluppatti
				(6) Narsampatti
				(7) Mittapalli
				(8) Obakkavalasai

1	2	3	4	5
			Uttangarai	(9) Kondampatti
				(10) Kollanur
				(11) Chennappanayakanur
				(12) Iluppaikuttappatti
				(13) Uttangarai
				(14) Tandiyappanur
			Samalpatti	(15) Samalpatti
				(16) Kalluganur
				(17) Gollappatti
				(18) Selakarampatti
				(19) Viriyampatti
				(20) Kursampatti
				(21) Kanganur
				(22) Oddapatti
				(23) Kanichchi
	2. Pochampalli		Mathur	(1) Kondireddipatti
				(2) Sonar Halli
				(3) Marappanayakanpatti
				(4) Batrahalli
				(5) Gendikampatti
				(6) Nagampatti
				(7) Pichchuguntanahalli
				(8) Kannandahalli
	3. Krishnagiri		Bargur	(1) Puilgunta
				(2) Thogarapalli R.F
				(3) Jegadevipalayam
			Kandikulupam	(4) Chendrappalli
				(5) Sulamalai
			Krishnagiri Town	(6) Agasipalli

[F. No. NHAI/BOT/11012/60/2005 (Pt)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.